

प्रेषक:-

रमेश कुशवाहा  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट संख्या-17, मेरठ।

सेवा में,

श्रीमान संयुक्त रजिस्ट्रार (एडमिन. मिस०)

For,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,  
मेरठ।

**विषय- पत्रांक संख्या- 10470/IV-3825/Admin(A-4)/ Allahabad, Dated-02.08.2024 के माध्यम से आहूत सम्पत्ति विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 के संदर्भ में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ, माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-10470/IV-3825/Admin(A-4)/Allahabad, Dated-02.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अधोहस्ताक्षरी का वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 का ऑनलाइन मोड के माध्यम से सम्पत्ति का पुनरीक्षित विवरण आहूत किया गया है जिस पर अधोहस्ताक्षरी का सादर निवेदन इस प्रकार है-

1. यह कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा न्यायिक सेवा में दिनांक 18.12.2009 में अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०-1, जनपद उन्नाव का पदभार प्रथमतः ग्रहण किया था।
2. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2009-10 संलग्नक क-1, 2009-10(नियुक्ति के समय) संलग्नक क-2, 2010-11 संलग्नक क-3, 2011-12 संलग्नक क-4, 2012-13 संलग्नक क-5, 2013-14 संलग्नक क-6, 2014-15 संलग्नक क-7, 2015-16 संलग्नक क-8, 2016-17 संलग्नक क-9 तक का विवरण ऑफलाइन मोड से श्रीमान जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पत्रांक संख्या-2662/1 dated: 16.08.2024 के माध्यम से माननीय न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है जो कि संलग्नक क-1 ता क-9 है।
3. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2017 से 2023 तक का विवरण ONLINE MODE द्वारा संलग्न कर सम्प्रेषित किया जा रहा है। जो कि 2017-18 संलग्नक-1, 2018-19 संलग्नक-2, 2019-20 संलग्नक-3, 2020-21 संलग्नक-4, 2021-22 संलग्नक-5, 2022-23 संलग्नक-6 है। उक्त विवरण पृथकतः भी online mode द्वारा संप्रेषित किया जा रहा है।
4. इस प्रकार माननीय न्यायालय के आदेशानुपालन में पुनरीक्षित सम्पत्ति विवरण वित्तीय वर्ष 2009 से 2017 सहित वित्तीय वर्ष 2017 से 2023 तक का विवरण संलग्न कर माननीय न्यायालय के समक्ष सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।
5. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष विवरण भेजने में हुए विलम्ब का कारण न्यायालयीय कार्य में व्यस्तता और भूलवश वित्तीय वर्ष के कॉलम में न्यायालय द्वारा संज्ञान में लायी गयी अनियमितता रही है। उक्त अनियमितता को दूर करते हुये पुनरीक्षित साम्पतिक विवरण पूर्ण कटौतियों के साथ





सुधार करते हुये सम्प्रेषित किया जा रहा है। पुनः कटौतियों के संदर्भ में पूर्व तैनाती स्थल से वेतन इत्यादि की कटौतियों के सत्यापित प्रतियां प्राप्त होने का विलम्ब रहा है।


अतः अधोहताक्षरी विलम्ब से सम्पत्ति विवरण भेजने के लिए क्षमा प्रार्थी है। प्रार्थी का विलम्ब क्षमा करते हुए पुनरीक्षित सम्पत्ति विवरण स्वीकृत किए जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। महति कृपा होगी।

सादर।

दिनांक-10.09.2024

भवदीय

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

  
रमेश कुशवाहा  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
न्यायालय सं०-17, मेरठ।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

पत्रांक संख्या:-

दिनांक :-

सेवा में,

माननीय संयुक्त रजिस्ट्रार (एडमिन. मिस०) For, श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अग्रसारित।

जिला न्यायाधीश  
मेरठ।